



Date - 9th September, 2022

To,
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza,
Plot No. C/1, G-Block,
Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai – 400 051

Symbol: MHHL

Sub: Newspaper Advertisement for 13thAnnual General Meeting and Book Closure.

Respected Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we hereby enclose copies of the newspaper advertisements published on 9th September, 2022 in "Free press" in English and "Choutha Sansar" in Hindi, regarding the dispatch of Notice of the 13th Annual General Meeting of the Company scheduled to be held on Friday, the 30th day of September, 2022 at 3:00 p.m. at the registered office of the company at Plot No. 109, Sector 3, Industrial Area, Pithampur, Dist – 454774 (M.P.) INDIA and Book Closure.

You are requested to kindly take above information on your records.

Thanking You.

Yours faithfully,
FOR, MOHINI HEALTH & HYGIENE LIMITED

Arnika Jain Company Secretary

Manufacturing Unit & Registered Office: Plot No. 109, Sector 3, Industrial Area, Pithampur, Dist – 454774 (M.P.) INDIA +91-7292-426665, 7292-426666, Email: customercare@mohinihealthandhygiene.com, www.mohinihealthandhygiene.com

ECB raises rates by 75 basis points

FRANKFURT: The European Central Bank (ECB) has hiked interest rates across the eurozone by a record amount, as policymakers try to curb inflation. a media report said. The ECB's governing council has voted to raise all three key interest rates by 75 basis points, or 0.75 percentage points — a bigger hike than ever before, The Guardian reported.

CNN chief anchor Shaw dies at 82

NEW YORK: Bernard Shaw CNN's chief anchor for two decades and a pioneering Black broadcast journalist best remembered for calmly reporting the Gulf War in 1991 has died. He was 82. He died of pneumonia on Wednesday at a hospital in Washington, according to Tom Johnson, CNN's former chief executive.

dered where the man might

strike next. K4 Ezekiel Kelly, 19, a violent felon who was released early from prison this year, was taken into custody at around 9 pm. Memphis Police Director Cerelyn "CJ" Davis said dur-

ing a news conference early on Thursday that four peo-ple were killed and three others were wounded in seven shootings and at least two carjackings.

The first killing was at

12.56 am on Wednesday, and officers responded to three more crime scenes before receiving a tip at 6.12 pm that the suspect was livestreaming himself livestreaming himself threatening to cause harm

to citizens, Davis said. Police then sent out an alert warning people to be on the lookout for an armed and dangerous man responsible for multiple shootings and reportedly recording his actions on Facebook.

Page नगयालय अतिरिक्तितृत्वस्थिलशस् तहसील मल्हारगंज, इंदौर

क्रमांक/483/शेलर/2021-22

रंदौर, दिनांक **07.09 2022**

R.C.M. प्रकरण क्रमांक /8F-20(3)/2022-23

तद् द्वारा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि आवेदक औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग द्वारा पाम रेवती स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 115. रख्या 2.043, 118/1 रख्या 1.392 120 रख्या 0.993, 121 रख्या 0.283, 112 रक्षमा 3.318, 122/2 रक्षमा 17.089, 113 रक्षमा 2.064, 126/3 रक्षमा 3.739, रकवा हे. भूमि आवंटन हेतु आवंदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति वा संस्था को आपत्ति हो तो वह प्रकाशन की तिथि से सात दिवस के अंदर अपनी आपत्ति स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से तहसील न्यायालय तहसील मस्कारगंत्र कलेक्ट्रेट कक्ष क्रमांक 201 में उपस्थित होकर कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकता है। अवधि समाप्त होने के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

अतिरिक्त तहसीलदार

मल्हारगंज, इंदोर



म.ज. माध्यम/106265/2022

SAM INDUSTRIES LIMITED

Notice of 28th Annual General Meeting & Information on Remote E-Voting and Book Closure

. Notice is hereby given that the 28th Annual General Meeting (AGM) of the Members of Sam noustries Limited for financial year 2021-22 will be held on Wednesday, 28th day of September, 2022, at 04:00 P. M. through Video Contenencing ("VC") or Other Audio Visual September, 2022, at 04:00 P. M. https://doi.org/10.1009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/2009/in/200

Notice of Book Closure

mensors, 4500h. MERSINE
II. Notice is since networy given pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 read with
Rule 10 of Companies (Management & Administration) Rules, 2014 (Rules) and Requisitors 42
of SEBI Listro, Originations and Dischours Requirement) Regulations, 25(5), (LORI) with the
Regulater of Manchens and Share Transfer Books of the Company shall amount closed from
Thursday, 22nd September, 2022 to Wednesday 28th September, 2022 (both days
inclusive) for the purpose of said 25th Armaia Conners Meeting of the Company.

Remote E-Voting Information

Place: Indone Date: 07th September,2022

Namores 2-visionin information

III. The members are further informed that pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013, and Rule 20 of the Companies (Managament and Administration) Rules, 2014, and as semeded from time to time and Regulation 4 of SEBI (LODR) Rag. 2015. The company is pleased to provide a voting facility which will create the remarks to coarsiase their right to vote at the 28th Annual General Meeting (AGM) by electronic means for the businesses as at the 28th Annual General Meeting (AGM) and the section remains for the businesses as pleased to provide a voting facility which will enable the members to at the 28th Annual General Meeting (AGM) by electronic mea mentioned in the AGM Notice.

Necessary antangements have been made by the Company with Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to facilitate e-oring at the link www.everliagnidul.com to its members in respect of the tousiness set out in Notice of AGM, which has aimsed been mailed to the members along with the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2022 at their recisioned remailing addresses researchive.

The details pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the

The details pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 and the relevant Ruise processed there-under a mail solitows.

1. The business may be transacted through voting by electronic means. 2. Date and time of commencement of remote e-voting Younday, 25th Septembles, 2022 for 80.08 A.M. 3. Date and time of commencement of remote e-voting Younday, 25th Septembles, 2022 at 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 at 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: Wednesday, 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: 21st Septembles, 2022 and 5.00 P.M. 4. Cut-Off Date: 21 recording states enter in priyectal from or in demandratized from as on the quartor date of Wednesdey, 21st September, 202 only in plan De mittled to avail the facility of remote e-voting as well as e-voting in the AGM. 19. The Notice of the AGM and the Annual Report for the financial year 2021-22 as also available on the Company's weekball wave same-inclustries com-and on the website of CDSI, wave-evolingings com. 11. In case member has any grewinorobysared or slasses reporting e-voting may contract to Mr. Rakeshi Dale, 62 Manager, (CDSI, Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 258 Floor, Marathon Futures, Marfalla Mill Compounds, N. M. Josh Marg, Loser Parel (East), Martista - 400013 or send an email to helpdesk evoting@cdsindia.com or call toll fiee no. 1800 22 55 33.

ove information is being issued for the information and benefit o ny and is in compliance with the MCA Circulars and the SEBI Ca

Ča

charged from D AGARWAL FORTU

Further to note tha the registered offi Raiasthan (Jaipur). ants to commun address for commi

AGARWAL FORTU -9-A. 2nd Floor Go Email id: afiljaipur@

DATE 09.09.2022 PLACE JAIPUR

UJ. ujaas Regd. C

Contact No • E-mail : cs NOTICE OF T REMOTE E-VOT

nnual General Meetin nnual General Meetin orth in the Notice conv Also, the members are high properties of the pro

- The business as set voting by electronic r The remote e-voting
- the AGM is 23rd Sep Any person who acc the Company after th the cut-off date may at helpdesk.evotin However, if a perso
- existing user ID and ; vi. members may note t a) The remote e-votic on 29th September member, he /she s b) The facility for vol
- AGM for members c) The members who
- may also attend th d) only person whos registers of benefit off date shall be e

AGM using ballot p in case you have any q person mentioned belo Name: Anurag Mundra Designation: Director Address: Survey No. 21 Area, Indore (M.P.)-452 E-Mail Id: cs@ujaas.co

Place : Indore Date : 08th September



MOHINI HEALTH & HYGIENE LIMITED

Regd. & Corp. Off: Plot No 109, Sector 3 Industrial Area, Pithampur Dhar (M.P.) 454774 CIN:L17300MP2009PLC022058 Contact No.: +91-7292-426665, 7292-426666

E-mail:cs@mohinihealthandhygiene.com Website: www.mohinihealthandhygiene.com

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that 13thAnnual General Meeting of the Members of Mohini Health & Hygiene Limited is scheduled to be held on Friday, 30th day of September, 2022 at 3:00 P.M at Plot No 109, Sector 3 Industrial Area. Pithampur Dhar (M.P.) 454774 to transact the business a set out in the notice approved in the board meeting dated 29th August, 2022 Convening AGM.

The Notice of AGM along with Annual report has been sent by Email to all those member who's Email Ids are registered with the depository participant. For those members who have not registered their email addresses physical copy of notice is being sent through permitted mode. Share Holders who have not registered their E-mail addresses are requested to register their Email address with their relevant depository participants

The Annual Report for financial year 2021-22 along with the notice will also be available on the website of the company

Notice is further given pursuant to the Provisions of section 91 of the Companies Act, 2013 and in accordance with the SEBI (LODR), 2015 requirements; the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain close from Friday 23rdSeptember, 2022 to Friday 30thSeptember, 2022(both days inclusive) for the purpose of

Place: Pithampur

For Mohini Health & Hygiene Limited

Date: 09-09-2022

Sd/-Arnika Jain Company Secretary

google-site-verification: google3103570dc7ac7a1e.html

झांकी को लेकर चाक-चौबंद

ड्रेन केमरों से होगी निगरानी, सुरक्षा को लेकर अलर्ट

नगर प्रतिनिधि

इंदौर। कोरोनाकाल समाप्त होने के बाद दो साल बाद अब अनंत चतुर्दशी का उत्साह शहर में झाकियों के रुप में देखने को मिलेगा। आज निकलने वाली अनंत चर्तुदशी की झाकियों को लेकर शहर पुरी तरह तैयार हैं। इसके लिए जो भी सुरक्षा दस्ता मौके पर तैनात है उनको पिछले दिनों अंतिम रिअर्सल कराकर जिम्मेदारी सौंपी गई। इसको लेकर जहां पुलिस विभाग के हजारों कर्मचारी मौके पर तैनात रहेंगे वहीं अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी भी पुरी स्थिति पर नजर रखेंगे। आज की झांकियों के चल समारोह को देखने आसपास के स्थानों से भी लोग आते हैं इसलिए सुरक्षा को लेकर खास खयाल रखा जा रहा है।

हर साल की तरह इस साल भी झांकी मार्ग में गड्ढों की स्थिति को देखते हुए जहां नगर निगम ने गढ़डे भरने का काम किया वहीं पूरे रास्ते पर पेचवर्क भी किया गया है ताकि किसी तरह की घटना ना हो। इसके अलावा 4 हजार से अधिक आकर्षक लाईट लगाए हैं जिनसे पूरा माहौल रंगीन दिखाई देगा।

दोपहर बाद ही रूट डायवर्ट होगा



ट्रेफिक पुलिस ने आयोजन को लेकर टेफिक प्लान जारी किया है। प्रथम चरण में सांयकाल 5 बजे से जुलूस मार्ग अस्थाई तौर पर विश्रांति चौराहा, परदेद्गीपुरा चौराहा से मालवा मिल चौराहा, राजकमार ब्रिज, दरगाह चौराहा, चिकमंगलर चौराहा, जेल रोड चौराहा, द्गावालय मन्दिर डीआरपी लाईन से दरगाह चौराहे तक सभी प्रकार के वाहनों के लिए प्रतिबंधित रहेगा।

जबिक एमजी रोड पर यातायात का दबाव बढेगा ऐसे समय एमजी रोड को सामान्य आवागमन के लिए प्रतिबंधित करते हुए जवाहरमार्ग पर यातायात परिवर्तित किया जावेगा। साथ ही में सांयकाल 7 बजे से जुलुस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्ण प्रतिबंधित किया जावेगा।

चल समारोह को लेकर अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है तथा आज झांकी

80 बिल्डिंगों से होगी ड्यांकी मार्ग की निगरानी

अनंत चतर्दशी चल समारोह को लेकर पुलिस और जिला प्रशासन ने तैयारियां लगभग परी कर ली हैं। परे झांकी मार्ग को 6 सेक्टरों में बांटा गया है। लगभग ढाई हजार से अधिक सुरक्षा बल तैनात रहेगा, वहीं 80 हाईराइज बिल्डिंग से जवान निगरानी करेंगे। इसके पूर्व गुरुवार को शहर में जगह-जगह पुलिस ने प्रलैग मार्च निकाला जिसके तहत अधिकारियों ने चल समारोह की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस आयुक्त हरिनारायणचारी मिश्र ने बताया कि डीआरपी लाइन में अधिकारियों तथा अन्य जिम्मेदारों को बुलाकर उन्हें सुरक्षा संबंधी निर्देश दिए गए इसके बाद सभी कर्मचारियों की ड्यटी लगाई जाएगी। हालांकि शहर के कई इलाकों में रात में ही स्थानीय थानों के पुलिसकर्मियों ने प्लैग मार्च निकाला। प्रलिस आयक्त ने निर्देश दिए कि गणेश विसर्जन चल समारोह के दौरान कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रखी जाए। संवेदनशील क्षेत्रों में प्रलिस की पैनी नजर रहेगी। झांकी मार्ग पर २ हजार से अधिक कर्मचारियों की तैनाती रहेगी।

निकलने से पहले ही कर्मचारी अपने स्थानों पर पहुंचकर व्यवस्था को संभाल लेंगे। भीड पर नियंत्रण के लिए महिला पलिस कर्मचारियों तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के वालेंटियर भी तैनात किए जाएंगे।

फर्जी महिला एसडीएम पकडाई

राज्यपाल के साइन वाला फर्जी लेटर भी मिला, व्यापारी से रंगदारी मांग रही थी

इंदौर। फर्जी एसडीएम बनकर व्यापारी से रंगदारी मांगने वाली महिला को क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। उसके पास राज्यपाल मंगुभाई पटेल के साइन किया हुआ फर्जी लेटर भी मिला है। क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि वह एमपीपीएससी क्लियर न कर सकी तो उसने फर्जी अफसर बनकर लोगों को ठगना शुरू कर दिया। व्यापारी की शिकायत पर क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार कर लिया है।

डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि खुद को एसडीएम बता रही महिला का नाम नीलम पाराशर(40) है। वह खुद को

देपालपुर इलाके की एसडीएम बताती थी। इसके चलते यहां पर वह कई लोगों से रंगदारी मांगती थी। गौतमपरा के एक व्यापारी की शिकायत के बाद उसे क्राइम ब्रांच ने पकड़ा है। महिला कुछ दिन पहले खरीदारी करने पहुंची थी। सामान लेने के बाद व्यापारी ने बिल चुकाने को कहा तो रुपए देने के बजाय उसे जेल भिजवाने की धमकी दे डाली। जानकारी मिली है कि उसने महिला बाल विकास और पीडब्लयडी जैसे विभागों में भी नियुक्ति के नाम पर लोगों से रुपए ऐंठे हैं। उसके पास राज्यपाल मंगु भाई के साइन वाला नियुक्ति पत्र भी

मिला है। इसमें खुद के ट्रांसफर की बात कही गई थी।

क्राइम ब्रांच के मुताबिक फर्जी महिला एसडीएम एमपीपीएससी के जरिए राज्य प्रशासनिक अधिकारी पद के लिए तैयारी कर रही थी। लेकिन वह सिलेक्ट नहीं हो पाई। उसने कई अधिकारियों को देखने के बाद उनके ही लहजे में ही काम करना शरू कर दिया। उसके बोलने और चलने फिरने के रहन-सहन अधिकारियों जैसा दिखता है। अभी यह जांच की जा रही है कि इतने नियुक्ति पत्र और लेटर उसके पास कहां से आए थे।

दोगुने का झांसा देकर एक करोड से ज्यादा ढगे

इंदौर। संयोगितागंज पुलिस ने शेयर कारोबार में मोटे मनाफे का लालच देकर एक करोड से ज्यादा की ठगी करने वाले बदमाश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी ने अपने कई परिचितों को शेयर बाजार में निवेश और मोटा मुनाफा कमाने का लालच देकर पैसा ठग लिया। संयोगितागंज थाने में फरियादी संजय सोनी निवासी लेमन सिटी कॉलोनी पालिया रोड और अन्य की शिकायत पर आरोपी नमन पांडे पिता राजेंद्र पांडे निवासी आरएनटी मार्ग इंदौर के खिलाफ कारोबारी धोखाधडी की धाराओं में केस दर्ज किया है। फरियादी संजय सोनी ने बताया कि वह एक निजी बैंक में मैनेजर है। आरोपी

नमन पांडे ने उन्हें कुछ समय पूर्व यह झांसा दिया था कि शेयर बाजार में अगर उसके कहे अनुसार निवेश करोगे तो वह 1 साल में ही रकम को दोगनी करवा देगा। आरोपी ने विश्वास में लेने के लिए झठी जानकारियां दी। इसके बाद फरियादी संजय सोनी और उनके साथियों के बैंक के खाते खलवाए क्रेडिट कार्ड दिलवाए और अलग-अलग लोगों से एक करोड़ रुपए से ज्यादा ले लिए। आरोपी विश्वास बनाए रखने के लिए कभी-कभी कुछ मुनाफा भी दे देता था। इतना ही नहीं उनकी बैंक की किस्तें भी जमा करवा देता था बाद में उसने सारी चीजों से इनकार कर दिया।

भगाने पर दोस्तों के साथ आकर किया हमला

इंदौर। आजाद नगर इलाके में कल एक हेयर सैलुन संचालक पर वहीं रहने वाले कुछ असामाजिक तत्वों ने हमला कर विवाद किया। दरअसल एक युवक दुकान पर बेवजह बैट रहा था। दुकानदार ने उसे वहां से रवाना किया तो विवाद हो गया। आजाद नगर पुलिस के अनुसार मामला कोहिनुर कॉलोनी का है। घायल यवकों के नाम दिनेश और विनोद निवासी पालदा है। उनका कोहिनर कॉलोनी में हेयर कटिंग सैलून है। विनोद के अनुसार उनकी दुकान पर समीर नामक युवक बैट जाता है। इस वजह से ग्राहकी प्रभावित होती है, उन्होंने समीर को दुकान से रवाना किया तो उसने अपने पिता अजीज सहित अन्य दोस्तों को बुला लिया और हमला कर दिया। तुरंत आजाद नगर टी आई इंद्रेश त्रिपाठी बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में किया था।

Sqp

नवविवाहिता की मौत में पति सहित चार पर केस

इंदौर। एक नवविवाहिता को दहेज के लिए उसके ससुराल वालों ने इतना सताया कि उसने फासी लगाकर अपनी जान दे दी। पुलिस ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज किया है। मामला राऊ थाना क्षेत्र के न्यू कमल नगर का है। मृतिका का नाम मेघा पति कमलेश मीणा है। सहायक पुलिस आयुक्त रुबीना मिजवानी के अनुसार मेघा ने पिछले माह फासी लगाकर अपनी जान दे दी थी। मायके पक्ष के बयान में यह बात सामने आई कि पति कमलेश मीणा, सास रुकमणीबाई, ससुर राजेंद्र और देवर सावन उसे दहेज के लिए यातनाए देते थे। आए दिन उससे मारपीट भी की जाती थी। कम दहेज मिलने की बात पर

मिटाई दुकान पर हमला , सिंधी कॉलोनी में जमकर बवाल

सामान खरीदा, पैसे मांगे तो विवाद शुरू कर दिया

इंदौर। सिंधी कॉलोनी में कल रात नशेडी बदमाशों ने जमकर उत्पात मचाया। दुकान से उन्होंने सामान खरीदा, पैसे मांगे तो विवाद शुरू कर दिया। अपने साथियों को बुलाकर दुकानदार से मारपीट की और दुकान फोड़ी। इतना ही नहीं वहां से भागते समय गणेश पंडाल पर लद्र चलाएं। कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया है। घटना से क्षेत्र में खासा आक्रोश है। मिली जानकारी के अनुसार घटना कल रात 11 बजे बीके सिंधी कॉलोनी में स्थित पूजा

स्वीट दुकान में हुई है। संत कंवर राम व्यापारी संघ के अध्यक्ष गोपाल कोटवानी और सचिव संजय बांगेजा ने बताया कि मिठाई दुकान पर रात करीब 11 बजे कुछ लडके आए थे। उन्होंने सामान खरीदा. दुकान मालिक नारायण अरिजा ने पैसे मांगे तो विवाद करने लग गए। आरोपियों ने अपने साथियों को फोन करके बला लिया। इसके बाद गुंडों ने जमकर उत्पात मचाया। दकान में तोडफोड की। नारायण और उनके बेटे पर गंभीर हमला किया।

सड़क हादसे में युवक की मौत

इंदौर। आईटी पार्क के नजदीक सडक हादसे में एक युवक की जान चली गई। वहीं एक युवक घायल हुआ है। हादसा कैसे हुआ है, यह फिलहाल पता नहीं लग पाया है। एमवायअस्पताल में १०८ एंबुलेंस की मदद से समित पिता राजेंद्र निवासी तिल्लौर खुर्द और पिता गजानंद को इलाज के लिए बीती रात पहंचाया गया था।

कार्यालय नगर पालिक निगम, बुरहानपुर

क्रमांक/संपत्तिकर शाखा/2022

बुरहानपुर दिनांक /08/2022

एतद द्वारा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि नगर पालिक निगम अधिनयम 1956 की धारा 167 के अंतर्गत नगर पालिक निगम ब्रुस्हानपुर में भूखंड/भवन नजुल पट्टे के हक हस्तांतरण हेतु नीचे दर्शाये गये अनुसार हक हस्तांतरण बाबद आवेदन प्रस्तुत किये गये है। जिनके हक हस्तांतरण किये जाना है। अतः इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति दावा हो तो अपने लिखित प्रमाणित अभिलेखों सहित इस कार्यालय में सचना प्रकाशन के दिनांक से 15 दिवस में प्रस्तुत करे। अन्यथा समयावधि पश्चात किसी आपत्ति/दावे को स्वीकार नहीं किया जावेगा। निर्धारित तिथि के पश्चात हक हस्तांतरण स्वीकृत कर दिया जावेगा।

530.5	45 101 145 11 -1	4 1111 1411(0 1014 4 15 40 0 4	is oxiditive, verificial assistant en	29.590.00			
廝.	आवेदन का दिनांक	आवेदक का नाम जो दर्ज होना है	रिकार्ड में दर्ज नाम जो खारिज किया जाना है	वार्ड का नाम	भवन/मूमि क्रं. क्षेत्रफल	दायरा नं. पंजीयन नं.	आयार हक हस्तातंरण
1	03-02-21	श्री बाबुलाल हरि महाजन	श्री हरि आशाराम	मालीवाडा वार्ड	228	621	आपसी बटवारा, मृत्यु प्रमाण पत्र, टैक्स रसीद
2	15-02-22	श्री अरूण भावसार	दीपचंद शिवलाल	मालवीय वार्ड	12 /3-4	595	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, नजूल आदेश, शपथ-पत्र
3	15-02-22	श्रीमती संगीता जुनेजा वगेरा	श्रीमती उषा बेन पति नागेश कुमार	बुषवारा वार्ड	181	590	रजिस्ट्रीकरण
4	29-03-22	श्रीमती नाजीया बेगम	श्री ज्ञानेश्वर प्रजापति	आलमगंज वार्ड	468 / 150	12	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, विक्रय विलेख,
5	29-03-22	श्रीमती संघ्या पारे	श्री सुधीर लाड़	जयस्तंभ वार्ड	380	14	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, विक्रय विलेख,
6	18-05-22	श्री अमित सहगल	श्री अकबर अली पिता सै.अली	इतवारा वार्ड	373	70	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, नजूल आदेश, रजिस्ट्रीकरण
7	23-05-22	श्रीमती भारती भीमराव इंगले	उषाबाई पति राजु तायडे	इन्दिरा कॉलोनी	I- 5	74	टेक्स रसीद, रजिस्ट्रीकरण
8	01-06-22	श्री गणेश पुनमचंद चौहान	बुलाखीदास रामदास	मालवीय वार्ड	216/1	99	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, रजिस्ट्रीकरण
9	02-06-22	श्रीमती चित्रालेखा अग्रवाल	श्री राजेन्द्र अग्रवाल	इन्दिरा कॉलोनी	बी 47	102	टेक्स रसीद, रजिस्ट्रीकरण
10	02-06-22	श्री गौरेश जेठवानी	श्री रमेश पिता पन्नालाल बारी	राजपुरा	345/3	106	टेक्स रसीद, विक्रय विलेख, नजूल खसरा
11	03-06-22	श्री मोहन वासुदेव कोल्ते	श्री राधेश्याम यादव	इन्दिरा कॉलोनी	सी 120	107	टेक्स रसीद, विक्रय विलेख, म.प्र.हाउसिंग बोर्ड आदेश
12	03-06-22	श्री रविशंकर पांडे	सद्ध डेवलपर्स	इन्दिरा कॉलोनी	216	108	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, रजिस्ट्रीकरण
13	03-06-22	श्रीमती शीतल बोरसे	एन.आर.डेवलपर्स	इन्दिरा कॉलोनी	ए 179	109	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, विक्रय विलेख,
14	06-06-22	कामीनी महाजन	सद्ध डेवलपर्स	इन्दिरा कॉलोनी	293	112	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, विक्रय विलेख,
15	07-06-22	श्री दिलीप गंगवाल, सावित्री गंगवाल	शेख सईद पिता शेख शफी अहमद	महाजनापेठ वार्ड	152	115	टेक्स रसीद, नजूत खसरा, शपथ पत्र, रजिस्ट्रीकरण
16	09-06-22	श्री पुरूषोत्तम भावसार	श्री दामोदरदास भावसार	इतवारा वार्ड	324/2	121	टेक्स रसीद, नजूस खसरा, विकय विलेख, रजिस्ट्रीकरण
17	10-06-22	श्री भुपेन्द्र गीते	सद्ध डेवलपर्स	इन्दिरा कॉलोनी	ई 3	126	विक्रय विलेख, टेक्स रसीद, नजूल खसरा
18	10-06-22	श्री पुष्पा गीते	स्द्र डेवलपर्स	इन्दिरा कॉलोनी	ई 4	125	विक्रय विलेख, टेक्स रसीद, नजूल खसरा
19	10-06-22	श्रीमती मीता इंगले	त्रीमती मायादेवी बजाज	रूईकर वार्ड	1	123	विक्रय विलेख,
20	13-06-22	श्रीमती ममता अव्रवाल	त्री गुप्तकिशोर पिता छोटेलाल	मालवीय वार्ड	78/1	122	टेक्स रसीद, वसीयत पत्र, नजूल खसरा, मृत्यु प्रमाण पत्र
21	16-06-22	श्रीमती कल्पना दलाल	श्री नरेन्द्र कुमार नखत	लालबाग वार्ड	85	128	टेक्स रसीद, नजूत खसरा, विक्रय विलेख,
22	21-06-22	श्री इन्द्रजीत सिंह मोरे	एन.आर.डेवलपर्स	इन्दिरा कॉलोनी	ए 200	136	टेक्स रसीद, विक्रय विलेख,
23	22-06-22	श्री पवन, अनिता गुप्ता	सद्ध डेवलपर्स	इन्दिरा कॉलोनी	81	138	टेक्स रसीद, विकय विलेख, नजूल खसरा
24	22-06-22	श्रीमती शबीना बी पति सै.चाँद	श्री शेख हुसैन पिता शेख चाँद	गुलाबगंज	87/50	137	टेक्स रसीद, विकय विलेख, नजूल खसरा
25	15-07-22	राखी चनाल	रमनराव धुंडले	इन्दिरा कॉलोनी	ई.डब्ल्यू.एस 38	143	विक्रय विलेख, म.प्र गृह निर्माण समीति आदेश
26	15-07-22	श्री विजय पांडुरंग आपटे	श्री रामदास पाटील	रास्तीपुरा	इ.डब्ल्यू,एस/15	144	टेक्स रसीद, रजिस्ट्रीकरण, नजूल खसरा
27	19-07-22	राधिका गुजराती	एन.आर.डेवलपर्स	इन्दिरा कॉलोनी	₹ 199	146	टेक्स रसीद, रजिस्ट्रीकरण, नजूल खसरा
28	19-07-22	श्रीमती बबीता महाजन	रूद्र डेवलपर्स	इन्दिरा कॉलोनी	156	147	टेक्स रसीद, विक्रय विलेख, नजूल खसरा
29	19-07-22	श्री राजेन्द्र पाल गेना पाल	डॉ. वल्लभदास रामदास	लालबाग वार्ड	सी.41	148	टेक्स रसीद, रजिस्ट्रीकरण, नजूल खसरा
30	20-07-22	संगीता पाटील	एन.आर.डेवलपर्स	इन्दिरा कॉलोनी	190		टेक्स रसीद, रजिस्ट्रीकरण, नजूल खसरा
31	21-07-22	श्रीमती काननबाला	श्री उमाकांत जगन्नाथ	महार्षिदयानंद वार्ड	23	152	टेक्स रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, नजुल खसरा
32	21-07-22	श्री गजानंद पिता दिनकर वाणी	श्री दिनकर पिता तुकाराम वाणी	महार्षिदयानंद वार्ड	128/1स	149	नजूल आदेश, नजूल खसरा, मृत्यु प्रमाण-पत्र, शपथ-पत्र
33	21-07-22	श्री विष्णु पिता बाबुराव	श्रीमती मणकर्णिका बाई पति बाबुराव	शिकारपुरा वार्ड	382/1व	150	मृत्यु प्रमाण पत्र, टैक्स रसीद, वसीयतनामा
34	21-07-22	श्रीमती शारदा	श्रीमती नर्मदा बाई पति चंपालाल	प्रतापपुरा	244/1	151	विकय विलेख, नजूल खसरा
35	22-07-22	श्रीमती नफीसा अंसारी	श्रीमती असगरी बानो वगेरा	डाकवाडी	10/1	153	टेक्स रसीद, नजूत खसरा, नजूल आदेश, रजिस्ट्रीकरण, मृत्यु प्रम
36	22-07-22	श्री पुरषोत्तम	श्री सेवकराम भाई पन्नालाल पिता हिरालाल	आजाद वार्ड	106/2	154	टेक्स रसीद, नजूल खसरा
37	25-07-22	नंदा, गोपाल पाटील	एन.आर.डेवलपर्स	इन्दिरा कॉलोनी	Ų 28	155	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, रजिस्ट्रीकरण
38	25-07-22	न्नीमती दयाबाई चावला वगेरा	श्री किशोर तेजवानी वगेरा	रास्तीपुरा	289/6	156	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, रजिस्ट्रीकरण
39	26-07-22	मीनाबाई पोपटानी	जगदीश प्रसाद	गुरूनानक वार्ड	277	157	विकय विलेख, नजूल खसरा
40	26-07-22	श्रीमती सुनीता महाजन	सोहेल गप्फार पिता मो. इब्राहीम वगेरा	रास्तीपुरा	LIG-24	158	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, नजूल आदेश, रजिस्ट्रीकरण
41	29-07-22	श्री विशाल पिता विजय शाह	मणिलाल केवलदास	महार्षिदयानंद वार्ड	149	162	नजूल आदेश, नजूल खसरा, रजिस्ट्रीकरण, मौखिक बटवार
42	29-07-22	जॅकिता, किशन श्रॉफ	लक्ष्मणदास, किशनदास	महार्षिदयानंद वार्ड	54/1	163	नजूल आदेश, नजूल खसरा, रजिस्ट्रीकरण, टेक्स रसीद
43	01-08-22	निलेश कुमार पाटनी	सोनल मर्चेन्ट, जयस मर्चेन्ट	लालबाग वार्ड	61	166	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, रजिस्ट्रीकरण
44	01-08-22	संगीता निलेश पाटनी	नरेन्द्रकुमार रतनलाल वगेरा	लालबाग वार्ड	78	169	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, विक्रय विलेख
45	01-08-22	भारतीय उपाध्याय	मनमोहन सिंह बिंद्रा	इन्दिरा कॉलोनी	37	168	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, रजिस्ट्रीकरण
46	01-08-22	सत्यम पवार	एन.आर.डेवलपर्स	इन्दिरा कॉलोनी	A 93	164	टेक्स रसीद, नजूल खसरा, रजिस्ट्रीकरण
47	01-08-22	निलेश कुमार पाटनी ताराचंद	मनमोहन सिंह बिंद्रा	इन्दिरा कॉलोनी	13	165	नजूल खसरा, टेक्स रसीद, विक्रय विलय
48	03-08-22	तन्मय, जय पिता संजय निमोरकर	शैलेन्द्रर सिंह ठाकुर	रूईकर वार्ड	56/4, 62/1,62/2, 62/3	174	नजूत खसरा, टेक्स रसीद, विक्रय वितय, मृत्यु प्रमाण पत्र
40	02.09.22	गानेज कामा राजाे	सामना पाठक	ग्रज्याम	61/20	175	जन्म स्थार रेका स्थीर विका विका

सहायक आयुक्त नगर पालिक निगम, बुरहानपुर

नौकरी का झांसा देकर महिला चिकित्सक ने ठगा

इंदौर। शहर में एक महिला डॉक्टर ने नौकरी दिलवाने का झांसा देकर फल कारोबारी से 2 लाख रु. ठग लिए। महिला द्वारा ठगी का संभवतया यह पहला मामला सामने आया है। मामला विजय नगर पुलिस ने दर्ज किया है। फरियदी का नाम गौरव सोनालकर पिता प्रकाश निवासी शांति विला सिलिकॉन सिटी है। उनकी शिकायत पर आरोपी डॉ निमता दानी पति अनुपम खरे निवासी स्कीम नंबर चोपन है। डॉ निमता के बारे में बताया गया है कि वह बिरलाग्राम नागदा की रहने वाली है । गौरव ने पुलिस

करता है। डॉ निमता से 3 साल पहले फल डिलीवरी के दौरान ही परिचय हुआ था। डॉ निमता ने उसे सरकारी नौकरी दिलवाने का झांसा दिया और 2लाख 11 हजार खुद के एचडीएफसी बैंक खाते में ले लिए। फरियदी गौरव को बताया कि एम वाय अस्पताल में 3 महीने में उसकी नौकरी लग जाएगी। आज तक ना तो नौकरी लगी न हीं पैसा लौटाया। वही अब वह धमकी भी दे रही है। पुलिस का कहना है कि आरोपी निमता डॉक्टर भी है या नहीं इसकी भी जांच की जा रही है।

को बताया कि वह फल का काम

इवेंट मैनेजर को कोरियर से भेजा धमकी भरा पत्र

इंदौर। इवेंट मैनेजमेंट का काम करने वाले एक युवक को धमकी भरी चिट्टी मिली है। वह एक फिल्म अभिनेत्री का शो करने वाले हैं। उन्हें शो से रोकने की बात लिखी है, नहीं तो टपकाने की धमकी दी गई है। मंबरकुआं थाने में फरियादी आशीष गोयल निवासी अग्रवाल नगर की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फरियादी ने बताया कि उनके घर पर अंजनी कोरियर सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक पत्र मिला है। जिसमें आसिफ लाला डॉन के नाम से धमकी ਟੀ ਗई है।

युवक पर जानलेवा हमला

डंदौर। छत्रीपरा डलाके में एक यवक पर जानलेवा हमला हुआ है। छत्रीपुरा पुलिस के अनुसार फरियादी मोहम्मद नाज पिता कमाल निवासी शांति नगर जैन कॉलोनी की शिकायत पर आरोपी अनिल पाटिल और उसके साथियों के खिलाफ गंभीर चाकुबाजी मारपीट धमकी और आर्म्स एक्ट की घाराओं में केस दर्ज किया गया है। फरियादी पर आरोपी अनिल और उसके साथियों ने जयरामपुर पुलिया के पास छत्रीबाग में हमला किया था। पुलिस को जैसे ही खबर लगी तुरंत अफसर मौके पर पहंचे थे ।

गणेश पंडाल में युवक पर चाकू से हमला

इंदौर। एमआईजी इलाके में गणेश पंडाल में एक युवक पर चाकू से हमला हुआ है। युवक गणेश पांडाल में सभी लोगों को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा था। उसी दौरान उसने गाली दी। जिसके बाद विवाद हो गया था। एमआइजी थाना पुलिस के अनुसार घायल युवक का नाम इंद्रजीत पिता दिनेश कल्याणे निवासी विकास नगर है। उसकी शिकायत पर आरोपी कृष्णा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फरियादी ने पुलिस को बताया कि घर के नजदीक ही गणेश स्थापना की है। गणेश पंडाल में वह वहां मौजुद सभी भक्तों को पंडाल के नियम बता रहा था। साथ ही समझाइश दे रहा था कि किसी तरह के अपशब्द यहां कोई भी नहीं कहेगा। उसी दौरान खुद इंद्रजीत ने अपशब्द कह दिए इसी बात को लेकर विवाद हो गया। आरोपी कृष्णा ने उसे पंडाल में ही मारा पीटा इतना ही नहीं चाकू से उसके सीने पर वार भी कर दिया। पुलिस ने गंभीर चाकूबाजी की धाराओं में केस दर्ज किया।

अग्रवाल फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड (पहले देवकी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जाना जाता था)

CIN: L65921MP1993PLC007522 आमजन और कंपनी के शेयरधारकों को सूचना कंपनी के नाम में बदलाव

एतद द्वारा आमजन और कंपनी के शेयरधारकों को सुचित किया जाता है कि कंपनी का नाम देवकी लीजिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड से बदलकर अग्रवाल फॉर्च्युन इंडिया लिमिटेड कर दिया गया है।इसके अलावा कंपनी पंजीकत कार्यालय को मध्यप्रदेश (इंदौर से राजस्थान राज्य (जयपुर में बदलने की प्रक्रिया में है। भविष्य में यदि कोई आमजन/शेयर धारक कंपनी के साथ संवाद करना

चाहता है तो कृपया ध्यान दें कि संचार के लिए नया पता है। अग्रवाल फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड

एस-9-ए, दूसरी मंज़िल, गोपालपुरा, बायपास रोड, जयपुर - 302019, राजस्थान ईमेल आईडी : afiljaipur@gmail.com

के लिए और की ओर से अग्रवाल फॉर्च्यून इंडिया लिमिटेड

दिनांक : 09.09.2022 स्थान : जयपुर, राजस्थान

अदिति परमार कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी M. No: A37301



मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन लिमिटेड

पंजीकृत एंड कार्पीरेशन कार्यालय : प्लॉट नंबर 109, सेक्टर 3 औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर धार (म.प्र.) 454774 सीआईएन: 1 17300MP2009PLC022058 मोबाइल नंबर 91-7292-426665, 7292-426666 र्डमेल : cs@mohinihealthandhygiene.com

वार्षिक आम बैठक की सूचना एवं बुक क्लोजर का विवरण

यह सूचना दी गई है कि मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन लिमिटेड के सदस्यों की 13 वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार 30 सितंबर, 2022 को दोपहर 3:00 बजे प्लॉट नंबर 109, सेक्टर 3 औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर धार (M.P.) 454774 पर होने वाली है।

यह बैठक 29 अगस्त, 2022 को AGM बुलाने की बोर्ड बैठक में अनुमोदित नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को लेन-देन करने के लिए रखी गयी है

वार्षिक रिपोर्ट के साथ AGM की सूचना उन सभी सदस्यों को ईमेल द्वारा भेजी गई है, जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास पंजीकृत हैं।

उन सदस्यों के लिए जिन्होंने अपने ईमेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, नोटिस की भौतिक प्रति अनुमत माध्यम से भेजी जा रही है। शेयर धारक जिन्होंने अपने ई-मेल पते पंजीकृत नहीं किए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने ईमेल पते को अपने संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के

वित्तीय वर्ष 2021–22 की वार्षिक रिपोर्ट नोटिस के साथ कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के प्रावधानों के अनुसार और सेबी (LODR), 2015 की आवश्यकताओं के अनुसार नोटिस आगे दिया गया है AGM के उद्देश्य से कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर बुक्स शुक्रवार 23 सितंबर, 2022 से शुक्रवार 30 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

स्थानः पीथमपुर दिनांक: 09.09.2022 फॉर मोहिनी हेल्थ एंड हाइजीन लिमिटेड

sd/-अर्निका जैन कंपनी सचिव

49 03-08-22